



D P WIRES LIMITED

+91 88789 31861, +91 7412 261130

info@dpwires.co.in, investors@dpwires.co.in

www.dpwires.co.in

Date: - February 15th 2024

To, National Stock Exchange of India Limited, Listing Department Exchange Plaza,C-1 Block-G, Bandra-Kurla Complex, Bandra(E) ,Mumbai-400051	To, Bombay Stock Exchange, Listing Department, P.J. Tower, Dalal Street ,Fort, Mumbai-400001
--	---

Dear Sir / Madam,

Reference: - NSE Scrip – DPWIRES & BSE Scrip: 543962, ISIN: - INE864X01013

Sub: Newspaper Publication of the Unaudited Financial Results for the quarter ended 31st December 2023

Ref: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Please find attached the newspaper publication of the Unaudited Financial Results (Standalone) for the quarter ended 31st December 2023 published in /Naiduniya (Vernacular language) and English newspaper Business Standard on 15.02.2024.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For DP Wires Limited

KRUTIKA
MAHESHWARI

Digitally signed by
KRUTIKA MAHESHWARI
Date: 2024.02.15
18:15:05 +05'30'

Krutika Maheshwari
Company Secretary and Compliance officer

Date:- 15/02/2024

Place: - Ratlam



CIN: L27100MP1998PLC029523

Registered Office

16 - 18A, Industrial Area, Ratlam, Madhya Pradesh, India - 457001

एक नजर

निष्पत्तक वीरपत्नी व लख पुराण जॉय विदित आज रतलाम। विरहीय स्टेट रिजल शास्त्रीय रिजल आर्टिस्ट दिवस 15 फरवरी को लख नौ से दोहर एक एक एक निष्पत्तक वीरपत्नी व लख पुराण जॉय विदित संगा। आयुक्त दिवसका द्वारा निष्पत्तक पुराणों केर निष्पत्तक वीरपत्नी व लख पुराण जॉय विदित की जगगी। जगगीरि विभव अर्पणिया ने दी।

रतलाम। रतलाम स्वयंसेवक मंडलक संविधि द्वारा संरं पंचमी को रतलाम क स्वयंसेवक दिवस सौर दिवस क कथन भूषणक से मनाया गवा। नगर निगम निगम क स्थानिक रतलाम गज क जगक महाराज रतनसिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आतिशबाजी की गई। निगम क भी विचार किज गवा।

नगर निगम अध्यक्ष मंगल शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, नगर पंच अध्यक्ष मंडीर, पूर्व महासचिव सैकेट इनाम अतिथि थे। अतिथि का

महाराजा रतनसिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की आतिशबाजी

सौर दिवस वसंत पंचमी पर परंपरासुर मनाया गया रतलाम का स्थापना दिवस, मिठाई का वितरण किया



महाराज रतनसिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने हुए स्वयंसेवक मंडलक सदस्य 15 फरवरी को



महाराज रतनसिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने हुए स्वयंसेवक मंडलक सदस्य 15 फरवरी को



महाराज रतनसिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने हुए स्वयंसेवक मंडलक सदस्य 15 फरवरी को

कल व विहान महाराजा रतनसिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने हुए स्वयंसेवक मंडलक सदस्य 15 फरवरी को

महाराज रतनसिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने हुए स्वयंसेवक मंडलक सदस्य 15 फरवरी को

महाराज रतनसिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने हुए स्वयंसेवक मंडलक सदस्य 15 फरवरी को

पत्नी के प्रेमी के अपहरण में नौ लोग गिरफ्तार

पति व सास ने अन्य साथियों के साथ अपहरण कर कमरे में कर दिया था बंद

रतलाम। दीनपाल नगर क्षेत्र के कनौरी रोड निवासी हरशम कट से एक महिला के प्रेमी का अपहरण कर सास ने अन्य साथियों के साथ अपहरण कर दिया। महिला अपहरण के चारों तरफ भाग गई थी, नती में वे उसे भी खप ले जेते। प्रेमी को एक कमरे में ले जकर बंद कर दिया था पुलिस ने जानकारी कर अपहरण की तलाश कर 12 घंटे के भीतर अपहृत प्रेमी को दरवाजा कर अपहरण पति व सास सहित नौ अपहरण को गिरफ्तार कर लिया है।



पुलिस निगम ने अपहरण पति व सास सहित नौ अपहरण को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस निगम ने अपहरण पति व सास सहित नौ अपहरण को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस निगम ने अपहरण पति व सास सहित नौ अपहरण को गिरफ्तार कर लिया है।

ग्राम पंचायत चंदोड़िया में निजी जमीन पर कब्जे की शिकायत

मासली, क्षेत्र की ग्राम पंचायत चंदोड़िया में निजी जमीन पर कब्जे की शिकायत


मासली, क्षेत्र की ग्राम पंचायत चंदोड़िया में निजी जमीन पर कब्जे की शिकायत



ग्राम पंचायत चंदोड़िया में निजी जमीन पर कब्जे की शिकायत

भाव में गिरावट से फीकी पड़ी सोने और चांदी की चमक

रतलाम। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उथल-पुथल से मूल्यवान धातु सोने-चांदी के भाव में काफी गिरावट आ गई। इससे भारतीय बाजार में आ गए। गिरावट के चलते सोने और चांदी के भाव में 1700 रुपये बिना और सोने में 900 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई।



सोने-चांदी के भाव में गिरावट।

एक नजर भाव में उतार-चढ़ाव पर

तारीख	चांदी	सोने
14 फरवरी	71000	63200
13 फरवरी	72700	64100
12 फरवरी	72600	64050
10 फरवरी	72200	64150
09 फरवरी	72300	64300
08 फरवरी	71800	64300
07 फरवरी	71700	64300
06 फरवरी	71950	64200
05 फरवरी	72300	64150
03 फरवरी	73500	64600
(नोट: आर्टीफिशियल भाव वही प्रति दिन के अंतरांतर 10 ग्राम रखे थे)		

सोने-चांदी के भाव में गिरावट।

सोने-चांदी के भाव में गिरावट।

एक अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में शामिल हों

अक्टूबर 2024 में शुरू होने वाले शार्ट सर्विस कमीशन (तकनीकी) पुरुष- 63वें और शॉर्ट सर्विस कमीशन (तकनीकी) महिला- 34वें पाठयक्रम में शामिल होने के लिए तकनीकी स्नातकों (बीई/बी.टेक) से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

ऑनलाइन आवेदन 21 फरवरी 2024 को बंद हो जाएंगे।

अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें: www.joinindianarmy.nic.in

D.P. WIRES LIMITED				
16-6A, INDUSTRIAL ESTATE, RATLAM, GUJARAT-382001, INDIA				
Phone: +91-79-42311111, +91-79-42311112				
Website: www.dp-wires.com, Email: info@dpwires.com				
EXTRACT OF FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED ON 31 ST DECEMBER, 2023 (Rs. in Lakh except EPS)				
Particulars (All Rs. in Lakhs)	Quarter Ended		Year Ended	
	31 st December, 2023	31 st December, 2022	31 st December, 2023	31 st December, 2022
1 Total Income from Operations	25,191.43	27,278.90	34,415.74	1,22,130.95
2 Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	857.67	1,216.00	1,238.75	5,532.57
3 Net Profit for the period (after Exceptional Items)	857.67	1,216.00	1,238.75	5,532.57
4 Net Profit for the period after tax (after Exceptional Items)	632.15	906.05	930.84	4,104.42
5 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	632.15	906.05	930.84	4,104.21
6 Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	1,550.04	1,356.80	1,356.80	1,356.80
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve as per the audited Balance Sheet of the previous year)	-	-	-	17,790.38
8 Earnings Per Share (face value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	-	-	-	-
9 Basic (not annualized for the quarter ended)	4.08	5.85	6.01	26.46
10 Diluted (not annualized for the quarter ended)	4.08	5.85	6.01	26.46

SBI
GST Cell, FR & T Dept., State Bank of India, Corporate Centre,
3rd Floor, State Bank Bhavan, Madam Cama Road, Mumbai - 400021

CORRIGENDUM

Please refer to RFP No. CC/FR/GST/RFP/2023-24/01 Dated: 25.01.2024 for Appointment of Consultant for Service Tax and Goods and Services Tax (GST) Related Matters. Please visit "Procurement News" at <https://www.sbi.co.in> and e-Procurement agency portal <https://etender.sbi/sbi/> for Corrigendum No. CC/FINANCE/FR/GST/RFP/2023-24/01:Corr:01 issued on 15.02.2024.

Place: Mumbai Deputy General Manager (Taxation-II)
Date: 15.02.2024 Financial Reporting & Taxation Department

WESTERN COALFIELDS LIMITED
(A Subsidiary of Coal India Limited)
Coal Estate, Civil Line, Nagpur-400001, Maharashtra, India. Website: www.westerncoal.in

NOTICE

All the tenders issued by CIL and its subsidiaries for procurement of Goods, Works and Services are available on website of Coal India Limited (www.coalindia.in), respective subsidiary company (WCL, www.westerncoal.in), CIL e-procurement portal (<https://coalindiatenders.nic.in>) and central public procurement portal (<https://eprocure.gov.in>). Bids for the tender can be submitted through <https://coalindiatenders.nic.in> only. Corrigendum/Addendum, if any, are published on <http://coalindiatenders.nic.in> only. In addition, procurement is also being done through GeM portal (<https://gem.gov.in>).

"Give a missed call on toll free number 18002003004 to get our apps"

IDBI BANK LTD
Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400005
CIN: L65190MH2004GOI148838

TRANSFER OF STRESSED LOAN EXPOSURE

IDBI Bank Limited (Bank) intends to Transfer the Stressed Loan Exposure of Retail Portfolio (Housing Loan/ Loan Against Property/ MSME) to the eligible permitted entities on "as is where is, as is what is", "whatever there is" and "without recourse" basis. Bank is proposing to undertake Bidding Process in all cash basis to solicit binding bids in the form of irrevocable offers from eligible permitted entities in accordance with the regulatory guidelines issued by the RBI and all other relevant applicable laws.

For details please visit Bank's website www.idbibank.in. Click on Quick Links- Notices & Tenders. For further details, you may contact at assignment@idbi.co.in.

The Bank reserves the right not to go ahead with the proposed transfer at any stage without assigning any reason. Bank reserves the right to accept or reject any bids.

Place: Mumbai
Date: 15.02.2024

General Manager
Corporate Office
NPA Management Group

NAGPUR MUNICIPAL CORPORATION
(MECHANICAL WORKSHOP) DEPARTMENT

E-TENDER NOTICE 2nd CALL

Commissioner, NMC invites e-tenders for the following work. The details of e-tender can be downloaded from e-tendering portal (www.mahatenders.gov.in). The terms and condition of e-tender are available on e-tender portal (www.mahatenders.gov.in). The sale and purchase of e-tenders can be done through online banking.

Superintending Engineer (P.W.D) & HOD Mechanical (Work-Shop Department)

Sr. No.	Name of Work	Estimate Cost (in Rs.)
A	Purchase of 1 NOS Tree Transplanter vehicle for Garden Department, Nagpur Municipal Corporation	5,59,20,785/-

Note - 1) EMD (In Rs. 280000/-) & Cost of blank tender from (In Rs. 3360/-)
2) E-tender sale Date from (up to 5.00 p.m) : 14/02/2024 to 29/02/2024
3) E-tender Submission last Date 29/02/2024 (up to 5.00 p.m) 4) . Pre-Bid Meeting (03.00pm) : 21/02/2024 & Opening of E-tender Date 01.03.2024 & Time (5.00 p.m)

Executive Engineer (Workshop)
N.M.C., Nagpur

Adv. No. 1026 PR Date 14.02.2024

Canara Bank **IDBI Capital**

ADVERTISEMENT IN RESPECT OF TRANSFER OF STRESSED LOAN EXPOSURE OF ROHTAK HISSAR TOLLWAY PRIVATE LIMITED ("RHTPL") TO THE ELIGIBLE BUYERS (PERMITTED ARCs/NBFCs/Banks/FIs) THROUGH e-AUCTION UNDER SWISS CHALLENGE METHOD

IDBI Capital Markets & Securities Ltd on behalf of Canara Bank Limited as "Lead Bank" with consortium of Union Bank of India, Bank of India & Punjab National Bank as member banks ("Lenders") invites Expression of Interest ("EOI") from eligible ARCs / Banks / NBFCs / All India Financial Institutions ("Eligible Participants") in terms of extant guidelines from the Reserve Bank of India ("RBI") on Transfer of Stressed Loan Exposures subject to applicable regulations issued by RBI/regulators for transfer of Stressed Loan Exposures of M/s. Rohtak Hissar Tollway Private Limited (RHTPL) account(s) with Principal outstanding of the fund-based limits amounting to Rs. 1002.76 crore (Rupees One Thousand Two crore and Seventy Six lakhs only) through e-Auction under Swiss Challenge Method on "As is where is", "As is what is", "Whatever there is" and without recourse basis. The Lenders shall not assume any operational, legal or any other type of risks relating to the loan exposure and shall not be providing any representations or warranties for RHTPL. All interested Eligible Participants are requested to submit their willingness to participate in the e-Auction by way of an EOI and executing a Non-Disclosure Agreement. Last date for submission of EOI is February 19, 2024. Interested bidders can access IDBI Capital's web site for web-notice and can get further details on www.idbicapital.com by clicking on Tender & Bids or www.canarabank.com

Interested parties may contact undersigned :

Contact Persons	Contact Details	E-mail ID
Mr. Jitendra Agarwal	Vice President - ICMS +91 222217100 / 1811	project.rose@idbicapital.com
Mr. Misab Madamapat	Senior Executive - ICMS +91 8281333207	
Mr. Chandrashekhar Yadav	Canara Bank +91 94645 34482	cb3966@canarabank.com
Mr. Amit Mittal	Canara Bank +91 73496 29794	

Please note that e- Auction process envisaged in this advertisement shall be subject to final approval by the Competent Authority of the Lenders. Further, the Lenders reserve the right to cancel, modify, amend or withdraw any of the terms of this advertisement and process document at any stage and/or disqualify any eligible party, at any stage without assigning any reason whatsoever and without any liability by uploading the corrigendum on the website and the decision of the Lenders in this regard shall be final and binding. This is not an offer document and is being issued with no commitment.

Place : Mumbai
Date : 15.02.2024

Issued by
IDBI Capital Markets & Securities Ltd

D.P. WIRES LIMITED
16-18A, INDUSTRIAL ESTATE, RATLAM
CIN-U27100MP1998PLC029523,
Phone : +91-07412-261130, +91-07412-261140
Website : www.dpwires.co.in Email : info@dpkataria.com

EXTRACT OFFINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED ON 31st DECEMBER, 2023
(Rs. in Lakh except EPS)

Particulars (All Rs. in Lakhs)	Quarter Ended		Year Ended	
	31 st December, 2023	30 th September, 2023	31 st December, 2022	31 st March, 2023
1 Total Income from Operations	25,191.43	27,278.90	34,415.74	1,22,130.95
2 Net Profit for the period (before Tax and Exceptional item)	857.67	1,216.00	1,238.75	5,532.57
3 Net Profit for the period before tax (after Exceptional item)	857.67	1,216.00	1,238.75	5,532.57
4 Net Profit for the period after tax (after Exceptional item)	632.15	906.05	930.84	4,101.42
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	632.15	906.05	930.84	4,104.21
6 Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	1550.04	1,356.80	1,356.80	1,356.80
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve as per the Audited Balance Sheet of the previous year)	-	-	-	17,790.38
8 Earnings Per Share (face value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	-	-	-	-
9 Basic: (not annualized for the quarter ended)	4.08	5.85	6.01	26.46
10 Diluted: (not annualized for the quarter ended)	4.08	5.85	6.01	26.46

Notes: - 1. The above financial is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the National Stock Exchange of India Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results for the quarter ended 31st December, 2023 are available on website of www.bseindia.com and www.nseindia.com and Company's website at www.dpwires.co.in

2. The above financial results have been prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Ind AS prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India and in compliance with regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (As amended), including relevant circulars issued by the SEBI from time to time.

For, D. P. WIRES LIMITED
Date : 13.02.2023
Place : Ratlam

PRAVEEN KATARIA (MANAGING DIRECTOR)
DINNO. - 00088633

PREMIER ENERGY AND INFRASTRUCTURE LIMITED
CIN:L45201TN1988PLC015521
Ground Floor, Tangy Apartments, 34 Dr P V Cherian Road, Egmore, 600008.
Email premierinfra@gmail.com Ph: 28270041 Website: www.premierenergy.in

Extract of Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2023

Sl. No.	Particulars	Standalone						Rs. In Lacs	
		Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended		Unaudited	Audited
		31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023		
1	Income	-	499.80	-	499.80	-	-	-	1,429.44
2	Profit / (Loss) (before Tax, Exceptional items)	(25.77)	146.29	(34.74)	99.53	(102.16)	657.81		
3	Profit / (Loss) (before Tax after Exceptional items)	(25.77)	146.29	(34.74)	99.53	(102.16)	657.90		
4	Profit / (Loss) (after Tax, after Exceptional items)	(25.77)	146.29	(34.74)	99.53	(102.16)	657.90		
5	Total Comprehensive Income for the year	(25.77)	146.29	(34.74)	99.53	(102.16)	657.90		
6	Equity Share Capital	4135.01	4135.01	4135.01	4135.01	4135.01	4135.01		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year								(970.70)
8	Earnings per Share (of Rs. 10/ each)								
	a) basic	(0.06)	0.35	(0.08)	0.24	(0.25)	1.59		
	b) Diluted	(0.06)	0.35	(0.08)	0.24	(0.25)	1.59		

Sl. No.	Particulars	Consolidated						Rs. In Lacs	
		Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended		Unaudited	Audited
		31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023		
1	Income	-	499.80	0.52	499.80	0.52	1,429.95		
2	Profit / (Loss) (before Tax, Exceptional items)	(35.89)	130.95	(41.52)	65.12	(123.60)	623.06		
3	Profit / (Loss) (before Tax after Exceptional items)	(35.89)	130.95	(41.52)	65.12	(123.60)	623.15		
4	Profit / (Loss) (after Tax, after Exceptional items)	(35.89)	130.95	(41.52)	65.12	(123.60)	623.15		
5	Total Comprehensive Income for the year	(35.89)	130.95	(41.52)	65.12	(123.60)	623.15		
6	Equity Share Capital	4135.01	4135.01	4135.01	4135.01	4135.01	4135.01		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)								(407.36)
8	Earnings per Share (of Rs. 10/ each)								
	a) basic	(0.09)	0.32	(0.10)	0.16	(0.30)	1.51		
	b) Diluted	(0.09)	0.32	(0.10)	0.16	(0.30)	1.51		

Note: The above is an extract from the statement of standalone and consolidated Financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Nine Months ended Financial Results and notes there to are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website www.premierenergy.in.

For Premier Energy and Infrastructure Limited
M Narayanamurthi
Managing Director
DIN: 0032455

Place : Chennai
Date : February 14, 2024

VEEFIN
VEEFIN SOLUTIONS LIMITED
(Formerly known as VeeFin Solutions Pvt Ltd)
CIN: U72900MH2020PLC347893
Regd. Office: Off No - 601, 602 & 603, Neelkanth Corporate IT Park, Vidyavihar (W), Mumbai 400086. Email id: investors@veefin.com

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

VEEFIN SOLUTIONS LIMITED ("Company") has issued "Notice of EGM" for convening the Extraordinary General Meeting of the members of the Company which is scheduled to be held on Thursday, February 22nd, 2024 at 04:00 P.M through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"). The Notice of the EGM has been dispatched to the shareholders of the Company on January 31st 2024 in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder.

This corrigendum is being issued to give notice to amend/ provide additional details as mentioned herein and pursuant to the provisions of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018:

Explanatory statement to the Notice of EGM be read with the following corrections:

In item no. 1&2, In sub point nos. 7 and 4 in the explanatory statement, following is replaced as per requirement of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018:

- In point no. 7, the category of Mr. Raja Debnath was mentioned as Non-Promoter and the same is replaced with the words "Promoter" as mentioned below.

Name of the Proposed Allottees	Category	Ultimate Beneficial Owner	Pre Preferential Issue*		No. of Equity Shares proposed to be allotted	No. of Convertible Warrants proposed to be allotted	Post Preferential Issue (After issue of 14,32,000 Equity Shares)	Post Preferential Issue (Assuming conversion of 4,20,000 Convertible Warrants into Equity Shares)		
			No of shares held	% of share holding				No of shares held	% of share holding	
RAJA DEBNATH	Promoter	N.A.	70,99,911	33.51	-	3,75,200	70,99,911	31.39	74,75,111	32.44

- In point no. 4, the names of Senior Management personnel, Ms. Binny Viral Shah and Mr. Jigar Shah (UBO of Jigar Shah HUF) have been added in the said point as mentioned below.
- Intention of the Promoters, Directors, Key Managerial Personnel or Senior Management of the issuer to subscribe to the offer:

None of the existing Directors, Key Managerial Personnel or Senior Management of the Company have shown their intention to subscribe to proposed Preferential Issue of Equity Shares and Convertible Warrants, except our promoters and Directors, Mr. Raja Debnath and Mr. Gautam Vijay Udani and our Senior Management personnel Ms. Binny Viral Shah and Mr. Jigar Shah (UBO of Jigar Shah HUF).

This Corrigendum to the Notice of the EGM shall form an integral part of the Notice of EGM which has already been circulated to shareholders of the Company and on and from the date hereof, the Notice of the EGM shall always be read in conjunction with this Corrigendum. This corrigendum is also being published in the Business Standard newspaper (All India Edition) and Vrutnmanas will also be made available on website of the stock exchanges i.e. BSE and on the website of the Company www.veefin.com. All other contents of the Notice of EGM, save and except as modified or supplemented by the Corrigendum, shall remain unchanged.

For VeeFin Solutions Limited
(Formerly known as VeeFin Solutions Pvt Ltd)
Urja Thakkar
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: A42925

Place : Mumbai
Date : 14th February, 2024

TECHNVISION VENTURES LIMITED
1486 (12-13-522), Lane No.13, Street No. 14, Tamaka, Secunderabad - 500 017
CIN: L51900TG1980PLC054066, Fax: 040-27173240, E-mail: info@technvision.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31.12.2023
(Rupees in Lakhs except per share data)

S. No.	Particulars	Standalone				Consolidated							
		Quarter Ended 31st Dec 2023 (Unaudited)	Corresponding 3 months Ended in previous year 31st Dec 2022 (Unaudited)	Previous Quarter Ended 30th Sep 2023 (Unaudited)	Year to Date 31st Dec 2023	Quarter Ended 31st Dec 2023 (Unaudited)	Corresponding 3 months Ended in previous year 31st Dec 2022 (Unaudited)	Previous Quarter Ended 30th Sep 2023 (Unaudited)	Year to Date 31st Dec 2023				
1.	Total Income from Operations	373.83	365.32	392.65	1123.20	1066.85	1405.57	5978.32	3735.78	5007.83	14109.49	10946.69	15124.65
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	11.43	(2.84)	26.90	48.76	5.29	34.21	925.08	(388.81)	274.47	519.94	(245.82)	72.39
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	11.43	(2.84)	26.90	48.76	5.29	34.21	925.08	(388.81)	274.47	519.94	(245.82)	72.39
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	7.30	(2.15)	19.89	35.00	4.92	20.87	894.22	(396.37)	256.16	466.53	(278.60)	21.78
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7.30	(2.15)	19.89	35.00	4.92	20.87	894.22	(396.37)	256.16	466.53	(278.60)	21.78
6.	Equity Share Capital	627.50	627.50	627.50	627.50	627.50	627.50	627.50	627.50	627.50	627.50	627.50	627.50
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	945.25	894.28	937.96	945.25	894.28	910.23	(828.84)	(1638.67)	(1758.33)	(828.84)	(1638.67)	(1316.53)
8.	Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations) (Face Value of Rs. 10 each)												
	Basic:	0.12	(0.03)	0.32	0.56	0.08	0.33	14.25	(6.32)	4.08	7.43	(4.44)	0.35
	Diluted:	0.12	(0.03)	0.32	0.56	0.08	0.33	14.25	(6.32)	4.08	7.43	(4.44)	0.35

Notes: - 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange viz. www.bseindia.com and the web site of the Company www.technvision.com.

2. The above results were reviewed by the Audit Committee and taken on record at the Meeting of the Board of Directors held on 14.02.2024.

3. There are no complaints received from Investors during the year.

4. The Consolidated results include the figures of the subsidiaries viz. SEElement Homes Private Limited, SITI Corporation Inc.-USA, Accel Force Pte Ltd-Singapore and its subsidiary companies viz. Solix Technologies Inc., USA and its subsidiary Solix Softex Pvt Ltd and Emagia Corp., USA.

5. The exchange conversion rate considered for the Subsidiary Company's figures are @ US \$ 1 = INR83.12 (Last quarter as on 31.12.2022 - 1 USD = INR 82.79).

6. The previous year / period figures have been regrouped / reclassified to conform to current period classification.

7. Minority Interest has been appropriately reflected in the above results and EPS is calculated on Net Profit after deducting Minority Interest.

By and on behalf of the Board for TechnVision Ventures Limited
Sd/-
Geetanjali Toopran
Whole Time Director & CFO
DIN: 01498741

Date: 14.02.24
Place: Secunderabad

GANGES SECURITIES LIMITED
Registered Office : P.O. Hargaoon, District Sitapur, Uttar Pradesh - 261 121
Phone (05862) 256220, Fax (05862) 256225, CIN : L74120UP2015PLC069869
Website : www.birla-sugar.com, E-mail : gangessecurities@birlasugar.com

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2023
(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter ended 31.12.2023	Quarter ended 31.12.2022	Quarter ended 31.12.2023	Quarter ended 31.12.2022	Quarter ended 31.12.2023	Quarter ended 31.12.2022
		(Unaudited)					
1	Total Income from operations	176.47	997.71	89.05	1,296.83	3,218.21	926.87
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	154.73	909.93	65.73	175.26	1,021.61	14.37
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	154.73	909.93	65.73	175.26	1,021.61	14.37
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	115.43	683.12	107.02	133.95	748.93	63.45
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5,521.22	15,196.75	217.12	5,536.13	15,253.14	177.15
6	Equity Share Capital	1,000.37	1,000.37	1,000.37	1,000.37	1,000.37	1,000.37
7	Other Equity						
8	Earning per share (of ₹10/- each) (in ₹) : Basic & Diluted	1.15 *	6.83	1.07 *	1.34 *	7.49 *	0.64 *

* Not annualised.

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.birla-sugar.com".
- There is no extra ordinary item during the above periods.

For and on behalf of Board of Directors
GANGES SECURITIES LIMITED
Urvi Mittal
Managing Director
DIN:02780842

Place : Kolkata
Date : 14th